



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2007/माघ 12, 1928

No. 9]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2007/MAGHA 12, 1928

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2007

आ.अ. 11(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसे रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः, उत्तराखण्ड राज्य में आयोग ने 1-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 1-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उस निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 25 जनवरी, 2007 को अधिसूचित उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[सं. 576/3/ई.वी.एम./2007/न्या. अनु.-II (लो.स.)]

आदेश से,

के. एफ. विल्फ्रेड, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

New Delhi, the 1st February, 2007

O.N. 11(E).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 1-Tehri Garhwal Parliamentary Constituency in the State of Uttarakhand, and it is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 1-Tehri Garhwal Parliamentary constituency in the State of Uttarakhand, as the constituency in which the votes at the current by-election to the House of the People from the constituency notified on 25th January, 2007, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

[No. 576/3/EVM/2007/JS-II (HP)]

By Order,

K. F. WILFRED, Secy.